

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 32]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 6, 1975/माघ 17, 1896

No. 32]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 6, 1975/MAGHA 17, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February 1975

G.S.R. 45(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government hereby extends the date, specified for the purpose of inviting objections or suggestions on the draft of the Prevention of Food Adulteration (Second Amendment) Rules, 1974, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) No. G.S.R. 1145, dated the 26th October, 1974, from the 26th November, 1974 to the 20th February, 1975.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules on or before the 20th February, 1975, will be considered by the Central Government.

[No. P. 15013/3/73-P.H.(Pt.)]

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1975

सा० का० नि० 45(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1145 तारीख 26 अक्टूबर, 1974 के साथ प्रकाशित खाद्य अपमिश्रण निवारण (द्वितीय संशोधन) नियम, 1974 के प्रारूप पर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट तारीख को 26 नवम्बर, 1974 से 20 फरवरी, 1975 तक बढ़ाती है।

उक्त नियमों के प्रारूप की बाबत 20 फरवरी, 1975 या उनके पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

[सं० पी० 1503/3/73-जन स्वा० (खण्ड)]

श्रावण कुमार, संयुक्त सचिव।